

JBM Auto Limited

Plot No. 133, Sector 24,
Faridabad - 121 005 (Haryana)
T : +91 - 129-4090200
F : +91 - 129-2234230
W : www.jbm-group.com
E : secretarial.jbma@jbmgrou.com



JBMA/SEC/2023-24/14

11th May, 2023

Listing Department

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai - 400001
Script Code: 532605

The National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051
Symbol: JBMA

Sub: Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)

Dear Sir/ Madam,


Pursuant to the provisions of Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI Listing Regulations, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisements published in Business Standard (English) in Delhi and Mumbai Edition and Business Standard (Hindi) in Delhi Edition dated 11th May, 2023 for the publication of Audited financial results of the Company (Standalone & Consolidated) for the 4th quarter and year ended 31st March, 2023 approved at the meeting of the Board of Directors held on 10th May, 2023.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For JBM Auto Limited



Sanjeev Kumar
Company Secretary
& Compliance Officer
M No. A18087

Encl.: As above

OFFICE OF MUNICIPAL CORPORATION BILASPUR (C.G.)
 संसोधन निविदा सूचना
 No.106/BMC/Zone-07/2023-24 Bilaspur Date 08/05/2023
 निविदा क्रमांक 09 सिस्टम टेंडर नम्बर 132556 निविदा संचालित करने की अंतिम तिथि 24.05.2023 के स्थान पर 30.05.2023 पढ़ा जाये, रोष चर्चे क्यास्त रहेगी।
 Executive Engineer Municipal Corporation Bilaspur (C.G.)
 Green City, Clean City, Dream City.

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited
 (Regd. Office PSEB Head Office, The Mall, Patiala 147001)
 Corporate Identity No. 440109PB2010SGC033813 Website: www.pspcl.in
 Contact No.: 96461-22185
Tender Enquiry No. 277/SS(D)-347/Spares Date: 09.05.2023
 Dy.CE/Substation (Design) TS Organization, C-1, Shakti Vihar, PSPCL, Patiala invites E-tender for Manufacture, Testing, Supply & Delivery of Tubular Type Lead Acid DC Batteries of various ratings. For detailed NIT & Tender Specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from 11.05.2023 (11:00 AM onwards).
 Note: Corrigendum and amendments, if any, will be published online at https://eproc.punjab.gov.in
 76156/12/1635/2023/23678 C 218/23

JANA SMALL FINANCE BANK (A scheduled commercial bank)
 Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangala Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.
DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002.
 Whereas you the below mentioned Borrowers, Co-Borrowers, Guarantors and Mortgagees have availed loans from Jana Small Finance Bank Limited, by mortgaging your immovable properties. Consequent to default committed by you all, your loan account has been classified as Non-performing Asset, whereas Jana Small Finance Bank Limited being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand notice calling upon the Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors/ Mortgagees as mentioned in column No.2 to repay the amount mentioned in the notices with future interest thereon within 60 days from the date of notice, but the notices could not be served on some of them for various reasons.

Sr. No.	Name of Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagee	Loan Account No. & Loan amount	Details of the Security to be enforced	Date of NPA & Demand Notice date	Amount Due in Rs./as on
1	1) M/s. Ashish Garments Represented by its Proprietor Mr. Ashish Batra, 2) Mr. Ashish Batra (Borrower), 3) Mrs. Priya Batra (Guarantor)	Loan Account No. 451202000382562 Loan Amount Rs.30,00,000/-	Details of Secured Assets - Hypothecated Moveable Assets: First Charge on all Raw materials and stock in the books of account and receivables and book debts of the business premises of the company i.e., M/s. Ashish Garments, R-4/3, Shop No.3, Ground Floor, Ramesh Park Faraz Complex, Lakshmi Nagar, Delhi-110014. Part-'B' - Mortgaged Immovable Property - Schedule Property - Property Details: One Built up shop on Ground Floor upto the extent of ceiling level, measurement 16.72 Sq meter, one side open alongwith Proportionate undivided and impartial ownership rights in the land underneath, bearing property known as R-4/3, known as Faraz Complex out of Rect No.57, Killa No.22, situated at the abadi of Faraz Complex, Ramesh Park, Lakshmi Nagar, in the area of Village Khureji Khas, Illaqa Shahdara, Delhi-110092. Owned by Mrs. Priya Batra, W/o. Mr. Ashish Batra. Bounded as: East: Shop No.2, West: Shop of Others, North: Road, South: Property of Others.	Date of NPA: 29.11.2023 Demand Notice Date: 24-03-2023	Rs.30,34,920/- (Rupees Thirty Lakhs Thirty Four Thousand Nine Hundred and Twenty Only) as on 20.03.2023

 Notices is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagee as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown in column No.6, against all the respective Borrower/ Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date of payment, is not paid, Jana Small Finance Bank Limited shall be entitled to take appropriate action for enforcement of security interest upon properties as described in Column No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to Jana Small Finance Bank Limited against the Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors/ Mortgagees of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.
 Date: 11.05.2023, Place: Delhi NCR Sd/- Authorised Officer, Jana Small Finance Bank Limited

Aadhar Housing Finance Ltd.
 Corporate Office: Unit No.802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai-400069
 Saharanpur Branch : Shop No. 21, 2nd Floor, Mpl No. 2/1377, Parasvanath Plaza, Court Road Saharanpur-247001(UP).
 Haridwar Branch : 1st Floor Seth Building Above Jindal Jewellers, Nagar Palika No 17/14A/9E Ranipur Mod Gram Ahmedpur Pargana, Jwalapur Haridwar 249407,(UK). Authorised officer: Paras Sabharwal : 9837609866
PROPERTY FOR SALE UNDER PROVISIONS OF SARFAESI ACT, 2002 THROUGH PRIVATE TREATY
 Whereas the Authorised Officer, Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) has taken the Possession u/s 13(4) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The SARFAESI Act, 2002) of the property ("the Secured Asset") given below The Authorised Officer has received offer of Sale from some interested party against the above mentioned Secured Asset under the SARFAESI Act for recovery of the Secured Debt. Now, the Authorised Officer is hereby giving the Notice to Sale of the above said property through Private Treaty in terms of rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The Details of the Account are as follows:

Combine Loan Code no.	Name of the Borrower/ Co-Borrowers	Demand Notice Date & Amount	Reserve Price (RP)	Total Outstanding Loan Amount	Description of the Secured Asset
(Loan Code. No. 02800001631 Saharanpur Branch)	Ankit Kumar (Borrower) Anjana (Co-Borrower)	11-07-2022 & ₹ 4,72,492/-	₹ 4,00,000/-	₹ 4,50,216/- (Rupees Four Lakh Fifty Thousand Two Hundred Sixteen Only) as on date 28-02-2023	All that part & parcel of property bearing, Khasra No 274 Dara Shivpuri Swad Bairoon Part Of Plot No 2 3 Kh No 274 Near Meer Nagar Colony Dara Shivpuri Swad Bairoon, Saharanpur, Uttar Pradesh, 247001 Boundaries: East: 29.75' Part of Property no. 2 and 3, Smt. Sanju, West: 30' Part of Plot No. 2, North: 12.041' others Property, South: 12.041' 15 Feet Wide Rasta.
(Loan Code No. 08500000597/ Haridwar Branch)	Mangal Singh (Borrower) Meenu Mangal Singh (Co-Borrower) Satish Kumar, Tirok Nath Gulyani (Guarantor)	18-07-2022 & ₹ 8,97,935/-	₹ 5,00,000/-	₹ 6,74,244/- (Rupees Six Lakh Seventy Four Thousand Two Hundred Forty Four Only) as on date 31-03-2023	All that part & parcel of property bearing, Kh No 430 2M Plot At Kh No 430 2M VIII Dhadera Pargana Roorkee, Haridwar, Uttarakhand, 249403 Boundaries: East: Plot of Mamma, West: Property of Dheer Singh, North: Road 14 feet, South: Seller Land

 The Authorised officer will hold auction for sale of the Secured Asset on 'As is where is Basis', 'As is what is basis' and 'Whatever there is basis'. AHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the said property. The Authorised Officer reserves the right to accept or reject the offer without assigning any reason whatsoever and sale will be subject to confirmation by Secured Creditor. On the acceptance of offer of proposed buyer, he/she is required to deposit 25% of accepted price inclusive adjustment of Earnest Money Balance immediately and the balance amount shall be paid by the purchaser within 15 (fifteen) days from date of acceptance of Offer by the Secured Creditor. The proposed buyer is to note that in case of failure of payment of balance amount by him/her within the time specified, the amount already deposited shall stand forfeited and property will be resold accordingly.
 This is 15 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002 is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Co-Borrower (s) and Guarantor (s) that the above described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" and to the amount due to Aadhar Housing Finance Ltd., in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.
 If the Borrower(s), co-borrower(s) has any buyer who is ready to purchase the mortgage property/secured asset at price above the given reserve price of then Borrower(s), Co-borrower(s) must intimate to AHFL on or before 26-05-2023 AHFL shall give preference to him. If Borrower(s), co-borrower(s) fails to intimate on or before 26-05-2023 the AHFL will proceed sale of property at above given reserve price.
 The Date of Auction is fixed for 26-05-2023.
 Place : U.P., Uttarakhand (Authorised Officer) For Aadhar Housing Finance Limited
 Date : 11-05-2023

Canara Bank (A Government Undertaking)
 CANARA BANK - REGIONAL OFFICE: DELHI BYPASS ROAD, OPP. JANNAT BANQUET HALL, KAMAL COLONY, MODEL TOWN, ROHTAK, HARYANA 124001
 PHONE NO. 01262-273434, E-mail : recroroh@canarabank.com

E-AUCTION SALE NOTICE
 SALE NOTICE OF IMMOVABLE/MOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 UNDER RULES 8(6) & 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002
 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable/movable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Canara Bank will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" in E auction arranged by the service provider M/s CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED Contact: Mr. Pakhare DD (9480691777/8553643144). Email id: eauction@ccsl.co.in through the website www.indianbankseaction.com, www.canarabank.com, www.ibapi.in
 FOR SERIAL NO. 1 DATE OF RECEIPT OF EMD IS 09.06.2023 UP TO 05:00 PM
 FOR SERIAL NO. 2 DATE OF RECEIPT OF EMD IS 25.05.2023 UP TO 05:00 PM
 FOR SERIAL NO. 1 DATE OF E-AUCTION IS 12.06.2023 UP TO 12:30 PM TO 01:30PM
 FOR SERIAL NO. 2 DATE OF E-AUCTION IS 29.05.2023 UP TO 12:30 PM TO 01:30PM
 (with unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale)

Sl. No.	Branch Name/ Name & Address of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Brief Description of Property/ies	Total Liabilities as on specified Date	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money Deposit (EMD) (in Rs.)	Details of A/c No. IFSC CODE Possession Type
1.	Canara Bank, sirsra-2 Branch (18267) E-mail: cb18267@canarabank.com, Mahender Singh S/o Kartar Singh, Gali No.11, Begu Road, Preet Nagar, Sirsa, Haryana, Pin Code: 125055	Hypothecation Of Ice Cool White Colour Renault Kwid Rxt Petrol, Having, Chasis No. MEEBBA009J2576118, Engine No. B4AA400E199460, Registration No. HR24Z3976, Registered On Dated. 18.09.2018 In The Name Of Mahender Singh S/O Kartar Singh	Total liabilities as on 09.05.2023 Rs.3,62,373.01/- (Rupees Three lakh hundred Seventy Three and Paise One Only)	Rs. 1,75,000/-	Rs. 17500/-	209272434 CNRB0018267 HYPOTHECATION
2.	Canara Bank, Rohtak Main Branch Sh. Manish Saini, Authorised Officer, (M) 8572801171, E-mail: cb1171@canarabank.com, Mr. Avinash Goyal S/o Ram babu Goyal, 334/17 Nehru Street, Jhajjar Road, Rohtak, Haryana, Pin Code:-124001(Borrower & Guarantor), Mr. Rakesh Goyal S/o Shri Ramesh Chand, 236/17, Vijay Nagar, Jhajjar Road, Rohtak, Haryana, Pin Code:-124001(Borrower & Guarantor), Kavita Goyal W/o Sh. Rakesh Goyal vide no. 10035 dated 22.09.2014, Further bounded as under: East: Mrs. Kavita Goyal W/o Shri Rakesh Goyal, 236/17, Vijay of Trilok Chand, South: 41'-6" - Property of Smt. Sunita Nagar, Jhajjar Road, Rohtak, Haryana, Pin Code:-124001(Borrower & Guarantor), M/s Ramayani Rohtak, Near D-Park, Above Raymond Showroom, Jhang Colony, Rohtak- 124001(Proprietor) Sh. Rakesh Goyal S/o Sh. Ramesh Chand, 236/17, Vijay Nagar, Jhajjar Road, Rohtak- 124001, M/s Ramayani Rewari, SCF 110, First Floor, Brass Market, Rewari- 123401(Proprietor) Avinash Goyal, 334/17, Nehru Street, Jhajjar Road, Rohtak- 124001	1. 1/2 share of House No. 300/17 situated at Nehru Street, Near Arya Nagar, Rohtak, measuring 82.50 sq. Yds, registered in the name of Sh. Avinash Goyal recovery, if any) S/o Sh. Ram Babu Goyal vide Sale Deed No. 10214 dated 15.11.2010. And 1/2 Share of House No. 300/17, situated at Nehru Street, Near Arya Nagar, Rohtak, measuring 82.50 sq. Yds., registered in the name of Sh. Rakesh Goyal S/o Sh. Ramesh Chand Goyal vide sale deed no. 10215 dated 15.11.2010 Having total area 165.00 sq. yds, Further bounded as under: North: 32'-3" + 9'-7" - Gali/ Prop. of Sh. Ram Mohan, South: 23'-00"-Gali, East: 49'-6" - House of Sh. Ram Babu Goyal, West: 43'-00" - Property of Smt. Santosh 2. EMT of H. No. 233/16, New No. 300/17, kaa part MC ID 104C25U484 measuring 79.32 Sq. Yds., Nehru Street, Near Arya Samaj, Vijay Nagar, Rohtak, registered in the Name of Smt. 124001(Borrower & Guarantor), Kavita Goyal vide no. 10035 dated 22.09.2014, Further bounded as under: East: Mrs. Kavita Goyal W/o Shri Rakesh Goyal, 236/17, Vijay of Trilok Chand, South: 41'-6" - Property of Smt. Sunita Nagar, Jhajjar Road, Rohtak, Haryana, Pin Code:-124001(Borrower & Guarantor), M/s Ramayani Rohtak, Near D-Park, Above Raymond Showroom, Jhang Colony, Rohtak- 124001(Proprietor) Sh. Rakesh Goyal S/o Sh. Ramesh Chand, 236/17, Vijay Nagar, Jhajjar Road, Rohtak- 124001, M/s Ramayani Rewari, SCF 110, First Floor, Brass Market, Rewari- 123401(Proprietor) Avinash Goyal, 334/17, Nehru Street, Jhajjar Road, Rohtak- 124001	Total liabilities as on 09.06.2021, Rs. 3,06,33,918.00/- plus further interest & other charges (minus recovery, if any)	Property 1 180.66 Lakhs Property 2 62.74 Lakhs	Property 1 18.07 Lakhs Property 2 6.28 Lakhs	209272946 CNRB001171 PHYSICAL POSSESSION

Terms & Condition :- (NOTE: The Movable properties at Sr No. 1 Will Be Put In E-Auction Under Hypothecation Agreement) The Assets Under Hypothecation Agreement With Canara Bank Are Put For Sale On "as is where is" "as is what is" and "whatever here is" basis. All charges including Registration Charges For Conveyance, Transportation Charges, Stamp Duty/gst Registration Charges/etc, As Applicable Shall Be Borne By The Successful Bidder Only.
Other terms and conditions:

- The property is being sold with all the existing and further encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property to his satisfaction. The bidder are advised to in their own interest to satisfy themselves with the title and correctness of others details pertaining to the secured assets including the size/area of the immovable secured asset in question and also ascertain any other dues/liabilities/encumbrances from the concerned authorities to their satisfaction before submitting the bid. The purchaser shall not be entitled to make any claim against the authorized officer/Secured Creditors in this regard at a later date.
- In the event of any default in payment of any of the amounts, or if the sale is not completed by reasons of default on the part of the purchaser/ bidder within the aforesaid time limit, the bank shall be entitled to forfeit all monies paid by the purchaser/bidder till then and put up the secured asset(s) for sale again, in its absolute discretion. Further, all costs, expenses incurred by the bank on account of such resale shall be borne and paid by the defaulting purchaser.
- Auction/bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website www.indianbankseaction.com (Mention the website). Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings.
- The property can be inspected, with Prior Appointment with Authorized Officer, on or before the date of submission of EMD i.e.
- The property will be sold for the price which is more than the Reserve Price and the participating bidders may improve their offer further during auction process.
- EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited by way of Demand draft in favour of Authorized Officer of respective Canara Bank Branches, OR shall be deposited through RTGS/NEFT/Fund Transfer to credit of account of respective Canara Bank Branches, on or before
 - Demand Draft/Pay order towards EMD amount. If paid through RTGS/NEFT, acknowledgement receipt thereof with UTR No. Photocopies of PAN Card, ID Proof and Address proof. However, successful bidder would have to produce these documents in original to the Bank at the time of making payment of balance amount of 25% of bid amount.
 - Bidders Name. Contact No. Address, E Mail Id.
 - Bidder's A/c details for online refund of EMD.
- EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to them. The EMD shall not carry any interest.
- Auction would commence at Reserve Price, as mentioned above. Bidders shall improve their offers in multiples of Rs. 1,000/- The bidder who submits the highest bid (above the Reserve price) on closure of 'Online' auction shall be declared as successful bidder. Sale shall be confirmed in favour of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor.
- The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. If the successful bidder fails to pay the sale price, the deposit made by him shall be forfeited by the Authorised Officer without any notice and property shall forthwith be put up for sale again.
- For sale proceeds of Rs. 50 (Rupees Fifty) lacs and above, the successful bidder will have to deduct TDS at the rate 1% on the Sale proceeds and submit the original receipt of TDS certificate to the Bank.
- All charges for conveyance, stamp duty/GST registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only.
- Authorized Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof.
- In case there are bidders who do not have access to the internet but interested in participating in the e-auction, they can approach concerned Regional Office: Delhi Bypass Road, Opp. Jannat Banquet Hall, Kamal Colony, Model Town, Rohtak, Haryana 124001 PHONE NO. 01262-273434, E-mail : recroroh@canarabank.com or Mr. Pakhare DD (9480691777/8553643144). Email id: eauction@ccsl.co.in

SPECIAL INSTRUCTION/CAUTION
 Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Canara Bank nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder or vendor in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives such as back-up, power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.
STATUTORY 15/30 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002
 Date : 10.05.2023 PLACE : ROHTAK Authorized Officer, Canara Bank

JBM Group
 Our milestones are touchstones
REVENUES Up by 20.81%
CASH ACCRUALS Up by 9.05%
EBIDTA Up by 16.78%
FUELING THE FUTURE
EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2023
 (₹ In crore unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 31/03/2023	Year Ended 31/03/2023	Quarter Ended 31/03/2022	Quarter Ended 31/03/2023	Year Ended 31/03/2023	Quarter Ended 31/03/2022
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	975.54	3,787.15	1,060.79	1,012.75	3,884.39	1,077.22
2	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items and Share of Joint venture & Associates)	36.60	165.96	73.83	36.95	169.24	81.71
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and Share of Joint venture & Associates)	36.60	165.96	73.83	36.74	169.54	74.15
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	26.81	121.63	84.98	28.41	125.14	85.83
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)) attributable to the company	27.50	121.47	84.29	28.72	127.66	85.49
6	Equity share capital	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65
7	Other equity (excluding Revaluation Reserves as Shown in Balance sheet of Previous year)	976.66	976.66	866.99	1,006.11	1,006.11	872.56
8	Earning Per Share(of ₹ 2/each.) (For continuing operations)						
	a) Basic (in ₹)	2.27	10.29	7.19	2.40	10.58	7.26
	b) Diluted (in ₹)	2.27	10.29	7.19	2.40	10.58	7.26

Notes:
 1 The Board at its meeting held on 10th May, 2023 has recommended a dividend @ 65% i.e. Rs 1.30/- per share (on fully paid up equity share of Rs 2/- each) for the year ended 31st March, 2023 subject to the approval of members in the next Annual General Meeting.
 2 The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended financial results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.jbmgroupp.com.
 For JBM Auto Limited Sd/- Nishant Arya Vice Chairman and Managing Director
 Place: Gurugram (Haryana) Dated: 10th May, 2023
JBM AUTO LIMITED
 Regd. Office: 601, Hemkunt Chamber, 89, Nehru Place, New Delhi-110 019
 CIN No: L74899DL1996PLC083073
 Email: Corp@jbmgroupp.com; Website: www.jbmgroupp.com Ph. 011-26427104-06 ; Fax: 011-26427100

JBM Group
Our milestones are touchstones

जय भारत मारुति लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 601 हेमकुंतल चैम्बर, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
फोन नं.: 011-26427104; फैक्स नं.: 011-26427100; वेबसाइट: www.jbmgroup.com
CIN No. L29130DL1987PLC027342

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही / 12 महीने के लिये अनअंकेक्षित परिणामों का विवरण (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	एकल			समेकित		
		31/03/2023 को समाप्त तिमाही	31/03/2023 को समाप्त 12 महीने अंकेक्षित	31/03/2022 को समाप्त तिमाही	31/03/2023 को समाप्त तिमाही	31/03/2023 को समाप्त 12 महीने अंकेक्षित	31/03/2022 को समाप्त तिमाही
1.	प्रचलनों से कूल आय	67,376.17	2,34,547.90	69,470.66	67,376.17	2,34,547.90	69,470.66
2.	अवधि के लिये निवल लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट और / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	2,162.78	5,767.48	2,011.05	2,200.52	5,849.49	2,036.66
3.	अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	2,162.78	5,767.48	2,011.05	2,200.52	5,849.49	2,036.66
4.	अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1,411.08	3,736.39	1,380.52	1,433.64	3,790.42	1,400.12
5.	अवधि के लिये समग्र आय (लाभ / (हानि) शामिल करते हुए अवधि के लिए (कर उपरांत) और अन्य समग्र आय (कर उपरांत))	1,405.57	3,870.25	1,440.85	1,427.85	3,923.28	1,459.90
6.	इक्विटी अंश पूंजी	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00
7.	आरक्षित पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों के अलावा)	48,499.38	48,499.38	45,170.38	48,644.17	48,644.17	45,262.16
8.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक ₹ 5/-) (वार्षिक नहीं) (जारी और स्थगित प्रचालनों के लिये)-						
	क) मूलभूत	3.26	8.63	3.19	3.31	8.75	3.23
	ख) मिश्रित	3.26	8.63	3.19	3.31	8.75	3.23

नोट:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन शेयर बाजारों के पास दायर किये गये तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का सार है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र शेयर बाजारों की वेबसाइटों, www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।
2. 10 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2023 के लिए 35% अर्थात ₹. 1.75 प्रति शेयर (प्रत्येक ₹ 5/- के पुर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पर) के लाभांश की सिफारिश की है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते जय भारत मारुति लिमिटेड
हरनाथ /
पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ

स्थान : गुरुग्राम (हरियाणा)
दिनांक : 10 मई, 2023

सितारा
सेवा गृह ऋण लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: पहली मंजिल, 216/सी-12, पुराना नं. सी-12, प्लाट नं. 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

नियम 8(1) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधो-हस्ताक्षरकर्ता ने सेवा गृह ऋण लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्थियों का प्रतिवृत्तिकरण एवं पुर्णतन और प्रतिवृत्ति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) और प्रतिवृत्ति हित प्रवर्तन नियम 2002 का संपर्कित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके मांग नोटिस जारी कर, ऋणी / सह-ऋणी / जमानतदार से सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अन्दर ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी।


ऋणी / सह-ऋणी / जमानतदार के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी / सह-ऋणी / जमानतदार एवं सर्व साधारण को पक्ष दृष्टा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपर्कित उक्त नियम के नियम 8(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी और सामान्य रूप से जमानता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार सेवा गृह ऋण लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें नीचे दी गई बकाया राशि के साथ-साथ ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत शामिल है। ऋणी का ध्यान प्रतिवृत्ति आस्थियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि (₹.)	सूचना दिनांक आधिपत्य दिनांक	अचल संपत्ति का विवरण
1.	1. श्रीमती लक्ष्मी पति श्री सुरजी लाल 2. श्री गौरव पिता श्री सुरजी लाल	₹. 10,05,489.85/- + ब्याज एवं आकस्मिक व्यय, उक्त पर लागत	31.01.2023 09.05.2023	प्लॉट नं.202, दूसरी मंजिल, ब्लॉक व्यू, जन्ता पलेट, सेक्टर 4, रोहिणी दिल्ली 110085 में रियल, फर्नीचर, पूर्ण: प्लॉट नं.205, पश्चिम: खुला, उत्तर: प्लॉट नं.203, दक्षिण: प्लॉट नं.201

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 09.05.2023

प्राधिकृत अधिकारी / मुख्य प्रबंधक
सेवा गृह ऋण लिमिटेड



EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

(₹ in crore unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 31/03/2023 Audited	Year Ended 31/03/2023 Audited	Quarter Ended 31/03/2022 Audited	Quarter Ended 31/03/2023 Audited	Year Ended 31/03/2023 Audited	Quarter Ended 31/03/2022 Audited
1.	Total Income from operations	975.54	3,787.15	1,060.79	1,012.75	3,884.39	1,077.22
2.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary Items and Share of Joint venture & Associates)	36.60	165.96	73.83	36.95	169.24	81.71
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and Share of Joint venture & Associates)	36.60	165.96	73.83	36.74	169.54	74.15
4.	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	26.81	121.63	84.98	28.41	125.14	85.83
5.	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)) attributable to the company	27.50	121.47	84.29	28.72	127.66	85.49
6.	Equity share capital	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65
7.	Other equity (excluding Revaluation Reserves as Shown in Balance sheet of Previous year)	976.66	976.66	866.99	1,006.11	1,006.11	872.56
8.	Earning Per Share (of ₹ 2/each.) (For continuing operations)						
	a) Basic (in ₹)	2.27	10.29	7.19	2.40	10.58	7.26
	b) Diluted (in ₹)	2.27	10.29	7.19	2.40	10.58	7.26

Notes:
1. The Board at its meeting held on 10th May, 2023 has recommended a dividend @ 65% i.e. Rs. 1.30/- per share (on fully paid up equity share of Rs 2/- each) for the year ended 31st March, 2023 subject to the approval of members in the next Annual General Meeting.
2. The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended financial results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.jbmgroup.com.

For JBM Auto Limited
Nishant Arya
Sd/-
Vice Chairman and Managing Director

Place: Gurugram (Haryana)
Dated: 10th May, 2023

JBM AUTO LIMITED
Regd. Office: 601, Hemkunt Chamber, 89, Nehru Place, New Delhi-110 019
CIN No: L74899DL1996PLC083073

Email: Corp@jbmgroup.com; Website: www.jbmgroup.com Ph. 011-26427104-06; Fax: 011-26427100

नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में एडवलाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ज्ञात) (पीओ), पंजीकृत कार्यालय: टॉवर 3, पंचव्या तल, बिल्डिंग 'बी', कोहिनूर सिटी मॉल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुला (बिन्दू), मुंबई-400 070

Edelweiss
Ideas create, values protect

सरप्रेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने नीडो से उक्त द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के पुनर्भूतान में ऋण की उक्त ऋण खातों को भर निष्पत्ति परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वकील किया गया है। के लिए कृपया ध्यान दें कि उक्त ऋण खातों के अंतर्गत मांग सूचना जारी की गई थी। उक्त मांग सूचना के अलावा, उक्त इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है। उधारकर्ताओं, प्रतिवृत्तियों, बकाया देयों, धारा 13(2) के तहत नैजी गई मांग सूचना और वहां दावा की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर का नाम और पता और ऋण राशि:
श्री मणिराज (उधारकर्ता) विला सं. 107, एनजीएफ, तहसील विलास, गुडगांव 122002 श्री बेनी राम तारा चंद जैन / श्रीमती विजु श्री (सह-उधारकर्ता) विला सं. 107, एनजीएफ, तहसील विलास, गुडगांव 122002 और श्री-15, साउथ एस्टेट्स, मांग-2, दिल्ली-110049 इसके अलावा: प्लॉट सं. 740, प्रथम तल और दूसरा तल, ब्लॉक बी, सुशांत लोक फेज-1 ग्राम सहायक चकपुर गुडगांव 122002
ऋण खाता सं.: LDELLAP000068366 ऋण अनुबंध दिनांक: 28.02.2019 मांग सूचना दिनांक: 17.04.2023
ऋण राशि: रुपये 2,46,24,588/- (रुपये दो करोड़ सत्तर लाख चौरास हजार पांच सौ पचास मात्र) एनपीए दिनांक: 06.04.2023
देय राशि: रुपये 2,70,29,859.38/- (रुपये दो करोड़ सत्तर लाख उन्तीस हजार छह सौ उनसठ और अड़तीस पचास मात्र) संग्राम सूचना: 17.04.2023 की दिनांक से मांग सूचना का ब्याज

प्रत्यापन परिसंपत्ति का विवरण: संपत्ति की अनुसूची संपत्ति / प्लॉट सं. 740, प्रथम तल और दूसरा तल, मापक 250 वर्ग मीटर, ब्लॉक बी, सुशांत लोक फेज-1 ग्राम सहायक चकपुर गुडगांव 122002 सीमांकन प्रकर: उच्च: प्लॉट सं. बी-71/17, दक्षिण: भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट सं. बी-71/17

इसलिए आपको उपर्युक्त उधारकर्ता / ओ से इस सूचना के 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए कहा जाता है। जिसमें किन्तु उक्त अधोहस्ताक्षर उक्त प्रतिवृत्तियों को प्रवर्तित करने के लिए सरप्रेसी अधिनियम के तहत कर्जावाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा कृपया ध्यान दें, कर्जा धारा 13(1) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना किसी भी प्रकार के माध्यम से उपर्युक्त प्रतिवृत्तियों को स्थानांतरित करने से रोका जाता है।

स्थान : गुडगांव
दिनांक : 11.05.2023

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
प्रति, नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में एडवलाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ज्ञात)

बैंक ऑफ इंडिया BOI
Bank of India

गोविंदपुरा शाखा-
पी.ओ. हनुवादा, भिवानी, हरियाणा-127021.
ई-मेल:- govindpura.chandigarh@bankofindia.co.in

परिशिष्ट-IV [दिएं नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, वित्तीय आस्थियों के प्रतिवृत्तिकरण एवं पुर्णतन तथा प्रतिवृत्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिवृत्ति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बैंक ऑफ इंडिया, गोविंदपुरा शाखा के अधोहस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित खाते के लिए उल्लिखित तारीखों को अधोलिखित कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) / विधिक उत्तरदायिका(ओं) को मांग सूचना जारी की थी और जिसमें कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) / विधिक उत्तरदायिका(ओं) से राशि को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार(ओं) कर्म / जमानती(ओं) / विधिक उत्तरदायिका(ओं) द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदार(ओं) और सर्व सामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर ने प्रतिवृत्ति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोलिखित संपत्ति का नीचे वर्णित खाते के लिए उल्लिखित तारीखों को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और सर्व जन को सामान्य रूप से संपत्ति से कोई लेन-देन नहीं करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नहीं करके उल्लिखित राशि और ब्याज के लिए बैंक ऑफ इंडिया, गोविंदपुरा शाखा के प्रभार के अधीन होगा।

उपलब्ध समय के संदर्भ में प्रत्यापन परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार, जमानती और बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना की तारीख	कब्जे की तारीख	मांग सूचना की तारीख की बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण
कर्जदार(ओं)- मेसर्स एनआर केशन प्लाट (गोविंदपुरा) - श्री रिवू वर्मा (निवेशक) और प्रिंसाइपल के विधिक उत्तरदायिका श्री श्रीमती विद्या देवी पत्नी कृष्ण कुमार (खाते में कर्जदार और जमानती की मां), श्री कृष्ण कुमार पुत्र परमानंद (कर्जदार के पिता) और श्रीमती निरिका पत्नी श्री रिवू वर्मा (कर्जदार की पत्नी)	06.01.2023	10.05.2023	₹. 18,72,000/- और इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार	"विधि मिले तब, 2420 डिजाइनिंग 07.05.2013 द्वारा श्रीमती विद्या देवी के नाम में संपत्ति दुकान माप समी मांग व खंड

दिनांक: 10.05.2023 स्थान: भिवानी प्राधिकृत अधिकारी

IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
Home Loans

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट-15, 6^थ तल, सेक्टर-44, इस्टीमेटेड एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002.
शाखा कार्यालय: प्रथम तल, 10-डी, पंजाबी कॉम्प्लेक्स, मल्तीपरज स्कूल के सामने, गुडगांव, कोटा-324007, राजस्थान

अचल संपत्तियों के लिए कब्जा सूचना

जबकि, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. ने अधिनियम अधिनियम के प्रतिवृत्तिकरण एवं पुर्णतन और प्रवर्तन (अधिनियम) हित अधिनियम, 2002 के तहत और अधिनियम हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. ने नीचे वर्णित खाते के लिए उल्लिखित तारीखों को अधोलिखित कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) / विधिक उत्तरदायिका(ओं) को मांग सूचना जारी की थी और जिसमें कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) / विधिक उत्तरदायिका(ओं) से राशि को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार(ओं) कर्म / जमानती(ओं) / विधिक उत्तरदायिका(ओं) द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदार(ओं) और सर्व सामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर ने प्रतिवृत्ति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोलिखित संपत्ति का नीचे वर्णित खाते के लिए उल्लिखित तारीखों को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और सर्व जन को सामान्य रूप से संपत्ति से कोई लेन-देन नहीं करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नहीं करके उल्लिखित राशि और ब्याज के लिए बैंक ऑफ इंडिया, गोविंदपुरा शाखा के प्रभार के अधीन होगा।

उपलब्ध समय के संदर्भ में प्रत्यापन परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार / जमानती (संपत्ति मालिक) का नाम और ऋण खाता संख्या	प्राप्ति / बंधक संपत्ति (संपत्ति के संपत्त भाग व खंड) का विवरण	मांग सूचना की तारीख, मांग सूचना की तारीख को देय राशि	भौतिक कब्जे की तारीख
श्रीमती नीलू सुपुन, पवन कुमार और अशोक सुपुन, निवासी-प्लॉट 9, प्लेट नं. 8-ई-899, पारसगढ़ अफेडिडल आवासीय योजना, नानता रोड, कुनहाड़ी, कोटा-324008, राजस्थान ऋण खाता सं. और एपी आईडी: HL32LILONS00005006240 एवं AP-10003462	संपत्ति तल 8, प्लेट नं. 8-ई-899, पारसगढ़ अफेडिडल आवासीय योजना, नानता रोड, कुनहाड़ी, कोटा-324008, राजस्थान के सभी भाग व खंड। सीमाएं:- पूर्व: पश्चिम: उत्तर: दक्षिण:	मांग सूचना: 10.05.2021 ₹. 8,14,185.52/- (रुपये आठ लाख चौदह हजार एक सौ पचासी और बावन पचास मात्र) दिनांक 31.05.2021 को देय और दिनांक 01.06.2021 से गुप्तान की तारीख तक लागू ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागतें	06.05.2023
श्रीमती बंधु और श्री साराज गोहर निवासी-प्लॉट नं. 464/5, बार्ड नं. 8, सुविधाएं के पास, सेक्टर-44, पारसगढ़, अन्य खाता सं. और एपी आईडी: HL32LILONS00005006240, राजस्थान ऋण खाता सं. और एपी आईडी: LAP20000334610 एवं AP-0257460	संपत्ति मकान नं. डी-383, प्रेम नगर, अफेडिडल हाकसिंग योजना, तहसील लाहपुर, जिला कोटा (राजस्थान), माप पुरिया 325 वर्ग फुट के सभी भाग व खंड। सीमाएं:- पूर्व: चोड़, पश्चिम: मकान नं. डी-382, उत्तर: रोड़, दक्षिण: मकान नं. डी-384	मांग सूचना: 13.04.2021 ₹. 263443.23/- (रुपये दो लाख तिरस्रो हजार चार सौ तैलास और तैसई पचास मात्र) दिनांक 30.04.2021 को देय और दिनांक 01.05.2021 से गुप्तान की तारीख तक लागू ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागतें	09.05.2023
श्रीमती गोकुल बार्द पत्नी श्री कस्तूर चंद (आवेदक), श्री विन्दू कुशर जोशी पुत्र श्री कस्तूर चंद (सह-आवेदक), सोनी मोडलर, मंडला, कोटा-325003, राजस्थान श्री अशोक नीला पुत्र श्री राम कुमार (जमानती) निवासी- बार्ड नं. 8, 60-जी, इंदुमान नगर, मानपुरा कोटा, राजस्थान-324001	श्रीमती गोकुल बार्द पत्नी श्री कस्तूर चंद के नाम में संपत्ति पट्टा नं. 2005, प्लॉट नं. 684, खसरा नं. 882, गाँव मंडला, ग्राम पंचायत मंडला, पंचायत समिति लाहपुर, जिला कोटा (राजस्थान) माप पुरिया 1700 वर्ग फुट के सभी भाग व खंड। सीमाएं:- पूर्व: मधुल लाव, पश्चिम: श्री प्रमोद का मकान, उत्तर: रोड़, दक्षिण: श्री देवा चंद का मकान	मांग सूचना: 13.10.2022 ₹. 1,62,173,07/- (रुपये सोहह लाख इक्कीस हजार सात सौ तीस और सात पचास मात्र) दिनांक 13.10.2022 को देय और दिनांक 14.10.2022 से गुप्तान की तारीख तक लागू ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागतें	10.05.2023

किसी पुराधार के लिए कृपया श्री नरेश्वर सिंह (फोन 8461105800) और श्री प्रवीण कुमार (फोन 8461105800) को संपर्क करें।
स्थान: कोटा, दिनांक: 11.05.2023 प्राधिकृत अधिकारी हिते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड